



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र 1932 (श0)
(सं0 पटना 659) पटना, बुधवार, 8 सितम्बर 2010

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश

8 सितम्बर 2010

सं0 7/नि. (विधि)-श.वै.-19/2002-4940—चूंकि विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक 4952, दिनांक 17 सितम्बर 2007 द्वारा तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगूसराय को बेगूसराय अरबन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि., बेगूसराय का परिसमापक नियुक्त किया गया था, परन्तु श्री दिनेश कुमार तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगूसराय का स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया है, इसलिए उक्त परिसमापनाधीन बैंक में “परिसमापक” की नियुक्ति आवश्यक है।

अतएव मैं दयाशंकर पाण्डेय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना, बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा-44(2) एवं बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम-64 (2) के अन्तर्गत बैंक के परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादनार्थ श्री चन्द्रशेखर सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगूसराय के परिसमापनाधीन बेगूसराय अरबन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि., बेगूसराय का “परिसमापक” नियुक्त करता हूँ।

आदेश से,
(ह.) अस्पष्ट,
निबंधक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 659-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>